



PAT-19010301022093 Seat No. _____
M. A. (Sem. II) (CBCS)
(W.E.F. 2019) Examination
August / September - 2020
Hindi : IHN-1002
(तुलनात्मक साहित्य सैद्धान्तिक - २)
(New Course)

Time : 2½ Hours]

[Total Marks : 70

सूचना : प्रश्न प्रश्नों के अंक समान हैं ।

- १ अनुवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके स्वरूप पर प्रकाश डालिए । १४
अथवा
१ अनुवाद की परिभाषा देते हुए अनुवाद के प्रकारों को विस्तार से समझाइए । १४
- २ संस्कृति के दुत के रूप में अनुवाद का महत्त्व सिद्ध कीजिए । १४
अथवा
२ अनुवाद की उपयोगिता एवं उपादेयता पर सविस्तार चर्चा कीजिए । १४
- ३ गद्य अनुवाद की समस्याओं का वर्णन कीजिए । १४
अथवा
३ पद्य कृतियों के अनुवाद के गुण-दोष पर प्रकाश डालिए । १४
- ४ अनुवाद प्रक्रिया में भाषा शास्त्र का महत्त्व समझाईए । १४
अथवा
४ विज्ञान एवं तकनीकी अनुवाद की समस्या पर प्रकाश डालिए । १४

ॡ टिप्पणल ललखिए : (कलन्हलं दल)

१ॡ

- (१) वलदेशलं डलषलओं के अनुवलद कलं सडसुडलएँ ।
 - (२) अनुवलद डें डुहलवडल कल डहतुव ।
 - (३) अनुवलद कल डवलषुड ।
 - (ॡ) अनुवलदक के गुण ।
-